



# नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष - 0733-2245000, FAX-0733-2245001

Email: [deangmckhandwa@gmail.com](mailto:deangmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

## पैरामेडिकल पाठ्यक्रम स्नातक / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र

### आवेदन पत्र (Application Form) वर्ष 2021–22

#### कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन क्रमांक .....	आवेदन फीस रूपये ..... प्राप्त हुई
रसीद क्र. ..... दिनांक .....	

आवेदन शुल्क :— आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रूपये 600/- (सामान्य वर्ग) एवं रूपये 400/- (आरक्षित वर्ग) कार्यालय में उपस्थित होकर नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT द्वारा संस्था नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाता क्रमांक 37773559136 (IFSC Code- SBIN0012159) में जमा कर बैंक रसीद की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन रद्द हो जायेगा।

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) .....
2. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में) .....
3. लिंग : महिला / पुरुष .....
4. धर्म : ..... वैवाहिक स्थिती : .....
5. पिता / पति का नाम (हिन्दी में) .....
6. पिता / पति का नाम (अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में) .....
7. माता का नाम (हिन्दी में) .....
8. माता का नाम (अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में) .....
9. श्रेणी (Category) :— अनारक्षित (UR)/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ EWS / स्वतंत्रता सेनानी (Freedom Fighter)/विकलांग (PHC)/सैनिक (Military Person) (संबंधित श्रेणी पर J का निशान लगायें) : .....
10. डिजीटल जाति प्रमाण पत्र नंबर (यदि लागू हो तो):— .....
11. वर्तमान पता :—  
.....पिन कोड .....दूरभाष नंबर .....  
मोबाइल नंबर .....ई-मेल .....
12. स्थायी पता :—  
.....पिन कोड .....दूरभाष नंबर .....  
मोबाइल नंबर .....ई-मेल .....
13. जन्म दिनांक ..... शब्दों में जन्म दिनांक .....  
(आयु दिनांक 14.02.2022 की स्थिति में) ..... वर्ष ..... माह ..... दिन

पासपोर्ट आकार का वर्तमान का कलर फोटो चिपकाएँ

14. जन्म स्थान ..... जिला ..... राज्य ..... राष्ट्रीयता .....
15. आवेदक का आधार नंबर ..... समग्र आई.डी. ....
16. परिवार की समग्र आई.डी. ....
17. म.प्र. का मूल निवासी (है / नहीं) ..... अगर नहीं तो राज्य स्थान .....
18. स्थानीय अभिभावक का पूरा नाम एवं पता (बाहरी अभ्यार्थियों के लिये) .....
- दूरभाष ..... मोबाईल नंबर .....
19. पिता का व्यवसाय ..... माता का व्यवसाय .....
- पति / पत्नि का व्यवसाय ..... एवं परिवार की सम्पूर्ण वार्षिक आय .....
20. शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	रोल नंबर	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाई स्कूल (10वीं)				समस्त अनिवार्य विषय			
हायर सेकेण्डरी 10+2 (12वीं)				जीव विज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी			
				रसायन शास्त्र			
				भौतिक शास्त्र			
				कुल अंक (PCB)			
				कुल प्राप्तांक (समस्त विषय)			

21. निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रामाणिक छायाप्रति संलग्न करें :-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्कूटनी द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी (समिति द्वारा)
1	आवेदन शुल्क — रसीद मूल प्रति				
2	कक्षा 10वीं की अंकसूची				
3	कक्षा 12वीं की अंकसूची				
4	स्थानांतरण प्रमाण—पत्र (टीसी)				
5	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
6	आधार कार्ड				
7	जन्म प्रमाण—पत्र (10 वी की अंकसूची जन्मतिथि अंकित नहीं होने पर )				
8	मूल निवासी प्रमाण —पत्र डिजीटल (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्कूटनी द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी (समिति द्वारा)
9	जाति प्रमाण पत्र – आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)				
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS Certificate)				
11	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिये (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				
12	यदि लागू हो तो – दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/सैनिक का प्रमाण पत्र				
13	गेप सर्टिफिकेट (यदि वर्ष 2021 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है।				

**नोट :-** सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को आवेदन–पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

1. नियमित सेवा नियुक्ति आदेश
2. कार्यभार ग्रहण करने का पत्र (ज्वाइनिंग पत्र)
3. नियमितीकरण संबंधी आदेश

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। यदि इसमें कोई जानकारी अपूर्ण एवं गलत पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक ..... पिता/माता/पालक के हस्ताक्षर ..... आवेदक के हस्ताक्षर .....

**नोट :-**

1. उक्त आवेदन से मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश लिया जा सकेगा, भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों हेतु पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. काउंसलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान समस्त मूल दस्तावेजों के साथ, दस्तावेजों की 02 सेट फोटोकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में जमा करवानी होगी।



## नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष - 0733-2245000, FAX-0733-2245001

Email: [deangmckhandwa@gmail.com](mailto:deangmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

### अभिभावकों की आय का संयुक्त घोषणा—पत्र

(अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा के अभिभावकों द्वारा  
अनिवार्य रूप से भरा जावे)

मैं ..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा व्यवसाय .....  
..... है तथा मेरी वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में रु. ....  
....) प्रतिवर्ष है। मेरी पत्नी श्रीमती .....  
..... का व्यवसाय ..... है एवं वार्षिक आय रु. ....  
..... (शब्दों में रु. ....) है।  
हमारे परिवार कि कुल वार्षिक आय रु. .... है।

### अथवा

मेरी पत्नी साधारण गृहणी है, अतः उनकी कोई अतिरिक्त आय नहीं है।

दोनों कि वार्षिक आय का सक्षम अधिकारी /नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त आय बाबत प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर हमारे  
पुत्र/पुत्री ..... का प्रवेश निरस्त करने  
का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा।

— यदि उक्त त्रुटिपूर्ण आय प्रमाण —पत्र के आधार पर हमारे पुत्र /पुत्री ने शिक्षण शुल्क /  
स्कालरशिप में कोई राहत प्राप्त की होगी तो उक्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क/स्कालरशिप राशि का  
भुगतान संस्था को हमारे द्वारा किया जायेगा।

पिता के हस्ताक्षर .....

माता के हस्ताक्षर .....

नाम .....

नाम .....

जो लागू ना हो , उसे काट देवे।



# नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा

लवकुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष - 0733-2245000, FAX-0733-2245001

Email: [deangmckhandwa@gmail.com](mailto:deangmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

## पैरामेडिकल पाठ्यक्रम स्नातक / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र

वर्ष 2021–22

(केवल शासकीय कर्मचारी हेतु)

1. श्री / श्रीमती ..... पद ..... नियुक्ति  
की दिनांक ..... विभाग का नाम ..... को पैरामेडिकल  
द्विवर्षीय डिप्लोमा / एक वर्षीय प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सहमति दी जाती है।
2. उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणिका के दिशा—निर्देशों का अवलोकन करने के  
पश्चात् सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
सील एवं मोबाइल नंबर  
(अधिष्ठाता / जिला प्रमुख / मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी / संचालक)